

## जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-21

दिनांक- 18.06.2022

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना बड़डूपुर पुलिस द्वारा जयकरन हत्याकाण्ड का सफल अनावरण कर हत्याभियुक्त भाई को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद-

वादी उत्तम कुमार पुत्र राम दुलारे रावत निवासी ग्राम फत्तेपुरवा मजरे सिद्दीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर ने थाना बड़डूपुर पर तहरीर दी कि दिनांक-15.06.2022 को उसका बड़ा पुत्र जयकरन अपने छोटे भाई विशाल को बड़डूपुर छोड़ने गया था, उसकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धधरा गांव के पास गला काट कर हत्या कर दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बड़डूपुर पर मु0अ0सं0 139/2022 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश पर थाना बड़डूपुर पुलिस टीम द्वारा डिजिटल डेटा एनॉलसिस एवं मैनुअल इंटेलीजेंस के आधार पर आज दिनांक 18.06.2022 को घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक के छोटे भाई अभियुक्त विशाल रावत पुत्र उत्तम रावत निवासी फत्तेपुरवा मजरे सिद्दीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदाही पर आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया।

अभियुक्त विशाल रावत से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि उसका बड़ा भाई विदेश में रहता था और 2-3 वर्षों में ही एक बार ही घर आता था। अभियुक्त विशाल का मृतक की पत्नी/भाभी के मध्य अवैध सम्बन्ध थे। मृतक जयकरन मई-2022 में विदेश से घर आया था। मृतक जयकरन को पत्नी और भाई के मध्य सम्बन्धों को लेकर शक हो गया था। मृतक ने विशाल को नौकरी करने के लिए बाहर जाने को कहा जिस पर दोनों में भाईयों में आपस कहासुनी हुई थी। इस सभी बातों के लेकर विशाल ने अपने भाई जयकरन को रास्ते से हटाने के लिए योजाना बनाई। योजनानुसार दिनांक-15.06.2022 को विशाल ने कमाने हेतु दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए कहा तो मृतक जयकरन उसको छोड़ने के लिए बड़डूपुर आया था। धधरा गांव के ईट भट्ठा के पास विशाल ने पहले से अपने पास छिपाकर रखे चाकू से जयकरन के सिर पर वार कर दिया और जमीन पर गिराकर गला रेतकर हत्या कर दी।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

विशाल रावत पुत्र उत्तम रावत निवासी फत्तेपुरवा मजरे सिद्दीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

### बरामदगी-

आलाकत्ल 01 अदद चाकू

### पुलिस टीम-

#### थाना बड़डूपुर-

1. श्री सुमित त्रिपाठी प्रशिक्षणाधीन सीओ/प्रभारी थाना बड़डूपुर जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार वर्मा थाना बड़डूपुर जनपद बाराबंकी।
3. का0 विवेक कुमार, का0 सचिन थाना बड़डूपुर जनपद बाराबंकी।

### सर्विलांस/स्वाट टीम-

1. उ०नि० ब्रजकिशोर सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री विजय बहादुर पाण्डेय प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी।
3. हे०का० जितेंद्र वर्मा, हे०का० मजहर अहमद, का० जुबेर खान सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी।
4. का० अनुज वर्मा, का० जरनैल सिंह, का० सुधाकर सिंह भदौरिया सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी।
5. का० दिव्यांश यादव, का० शैलेंद्र कुमार, का० धर्मेन्द्र कुमार सर्विलांस सेल/स्वाट जनपद बाराबंकी।